



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32]
No. 32]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 24, 2006/माघ 4, 1927
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 24, 2006/MAGHA 4, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2006

सं. 1/2006-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 36(अ).— केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 64/1995-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1995 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं० 18 के सामने, स्तंभ (3) में, स्पष्टीकरण में, “1 दिसम्बर, 2005” शब्दों के स्थान पर “1 जून, 2006” शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

[फा. सं. 354/190/99-टीआरयू (पार्ट)]

अजय, अवर सचिव

टिप्पणी : अधिसूचना सं 64/95-सीमाशुल्क, तारीख 16 मार्च, 1995 को भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 256 (अ) के तहत तारीख 16 मार्च, 1995 को प्रकाशित की गई थी और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा उत्तरोत्तर संशोधित की गई।

अधिसूचना सं० 96/95-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	तारीख 26 मई, 1995	सा०का०नि० 433 (अ),	तारीख 26 मई, 1995
अधिसूचना सं० 116/95-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	तारीख 13 नवम्बर, 1995	सा०का०नि० 738 (अ),	तारीख 13 नवम्बर, 1995
अधिसूचना सं० 1/96-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	तारीख 1 जनवरी, 1996	सा०का०नि० 3 (अ),	तारीख 1 जनवरी, 1996
अधिसूचना सं० 7/98-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	तारीख 2 जून, 1998	सा०का०नि० 302 (अ),	तारीख 2 जून, 1998
अधिसूचना सं० 4/2000-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	तारीख 21 फरवरी, 2000	सा०का०नि० 146 (अ),	तारीख 21 फरवरी, 2000
अधिसूचना सं० 11/2000-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	तारीख 1 मार्च, 2000	सा०का०नि० 189 (अ),	तारीख 1 मार्च, 2000
अधिसूचना सं० 46/2000-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	तारीख 28 अगस्त, 2000	सा०का०नि० 690 (अ),	तारीख 28 अगस्त, 2000
अधिसूचना सं० 49/2000-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	तारीख 29 सितम्बर, 2000	सा०का०नि० 764 (अ),	तारीख 29 सितम्बर, 2000
अधिसूचना सं० 35/2001-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	तारीख 29 जून, 2001	सा०का०नि० 500 (अ),	तारीख 29 जून, 2001
अधिसूचना सं० 46/2001-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	तारीख 25 सितम्बर, 2001	सा०का०नि० 690 (अ),	तारीख 25 सितम्बर, 2001
अधिसूचना सं० 25/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	तारीख 11 अप्रैल, 2002	सा०का०नि० 276 (अ),	तारीख 11 अप्रैल, 2002
अधिसूचना सं० 58/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	तारीख 3 दिसम्बर, 2002	सा०का०नि० 791 (अ),	तारीख 3 दिसम्बर, 2002
अधिसूचना सं० 16/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	तारीख 1 मार्च, 2003	सा०का०नि० 146 (अ),	तारीख 1 मार्च, 2003
अधिसूचना सं० 51/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	तारीख 12 जून, 2003	सा०का०नि० 482 (अ),	तारीख 12 जून, 2003
अधिसूचना सं० 15/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	तारीख 27 फरवरी, 2004	सा०का०नि० 153 (अ),	तारीख 27 फरवरी, 2004
अधिसूचना सं० 18/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	तारीख 23 मार्च, 2004	सा०का०नि० 210 (अ),	तारीख 23 मार्च, 2004

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2006

No. 1/2006-Central Excise

G.S.R. 36(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 64/95-Central Excise, dated the 16th March, 1995, namely:-

In the said notification, in the Table, against S.No.18, in column (3), in the Explanation, for the words and figures "the 1st day of December, 2005" the words and figures "the 1st day of June, 2006" shall be substituted.

[F. No. 354/190/99-TRU(Part)]

AJAY, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification No. 64/95-Central Excise, dated the 16th March, 1995 [G.S.R. 256(E), dated the 16th March, 1995] and was subsequently amended by notification No.96/95-Central Excise, dated the 26th May, 1995 [G.S.R. 433(E), dated the 26th May, 1995], 116/95-Central Excise, dated the 13th November, 1995 [G.S.R. 738(E), dated the 13th November, 1995], 1/96-Central Excise, dated the 1st January, 1996 [G.S.R. 3(E), dated the 1st January, 1996], 7/98-Central Excise, dated the 2nd June, 1998 [G.S.R. 302(E), dated the 2nd June, 1998], 4/2000-Central Excise, dated the 21st February, 2000 [G.S.R. 146(E), dated the 21st February, 2000], 11/2000-Central Excise, dated the 1st March, 2000 [G.S.R. 189(E), dated the 1st March, 2000], 46/2000-Central Excise, dated the 28th August, 2000 [G.S.R. 680(E), dated the 28th August, 2000], 49/2000-Central Excise, dated the 29th September, 2000 [G.S.R. 764(E), dated the 29th September, 2000], 35/01-Central Excise, dated the 29th June, 2001 [G.S.R. 500(E), dated the 29th June, 2001], 46/01-Central Excise, dated the 25th September, 2001 [G.S.R. 690(E), dated the 25th September, 2001], 25/02-Central Excise, dated the 11th April, 2002 [G.S.R. 276(E), dated the 11th April, 2002], 58/02-Central Excise, dated the 3rd December, 2002 [G.S.R. 791(E), dated the 3rd December, 2002], 16/03-Central Excise, dated the 1st March, 2003 [G.S.R. 146(E), dated the 1st March, 2003], 51/2003-Central Excise, dated the 12th June, 2003 [G.S.R. 482(E), dated the 12th June, 2003], 15/04-Central Excise, dated the 27th February, 2004 [G.S.R. 153(E), dated the 27th February, 2004], and was last amended by notification No. 18/04-Central Excise, dated the 23rd March, 2004 [G.S.R. 210(E), dated the 23rd March, 2004]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2006

सं. 5/2006-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 37(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 39/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 सा.का.नि. 291(अ) के तहत तारीख 23 जुलाई, 1996 का, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं० 17 के सामने, स्तंभ (3) में, स्पष्टीकरण में, " 1 दिसम्बर, 2005" शब्दों और अंकों के स्थान पर " 1 जून, 2006" शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

[फा. सं. 354/190/99-टीआरयू (पार्ट)]

अज्ञय, अवर सचिव

टिप्पणी : अधिसूचना सं. 39/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 को भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 291 (अ) के तहत तारीख 23 जुलाई, 1996 को प्रकाशित की गई थी और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा उत्तरोत्तर संशोधित की गई ।

अधिसूचना सं0 60/96-सीमाशुल्क	तारीख 22 अगस्त, 1996	सा0का0नि0 374 (अ),	तारीख 22 अगस्त, 1996
अधिसूचना सं0 86/96-सीमाशुल्क	तारीख 6 नवम्बर, 1996	सा0का0नि0 518 (अ),	तारीख 6 नवम्बर, 1996
अधिसूचना सं0 19/97-सीमाशुल्क	तारीख 1 मार्च, 1997	सा0का0नि0 106 (अ),	तारीख 1 मार्च, 1997
अधिसूचना सं0 69/97-सीमाशुल्क	तारीख 15 सितम्बर, 1997	सा0का0नि0 538 (अ),	तारीख 15 सितम्बर, 1997
अधिसूचना सं0 28/98-सीमाशुल्क	तारीख 2 जून, 1998	सा0का0नि0 293 (अ),	तारीख 2 जून, 1998
अधिसूचना सं0 99/98-सीमाशुल्क	तारीख 27 नवम्बर, 1998	सा0का0नि0 708 (अ),	तारीख 27 नवम्बर, 1998
अधिसूचना सं0 27/99-सीमाशुल्क	तारीख 28 फरवरी, 1999	सा0का0नि0 163 (अ),	तारीख 28 फरवरी, 1999
अधिसूचना सं0 111/99-सीमाशुल्क	तारीख 21 सितम्बर, 2002	सा0का0नि0 646 (अ),	तारीख 21 सितम्बर, 2002
अधिसूचना सं0 118/99-सीमाशुल्क	तारीख 29 अक्टूबर, 1999	सा0का0नि0 733 (अ),	तारीख 29 अक्टूबर, 1999
अधिसूचना सं0 8/2000-सीमाशुल्क	तारीख 27 जनवरी, 2000	सा0का0नि0 67 (अ),	तारीख 27 जनवरी, 2000
अधिसूचना सं0 11/2000-सीमाशुल्क	तारीख 31 जनवरी, 2000	सा0का0नि0 78 (अ),	तारीख 31 जनवरी, 2000
अधिसूचना सं0 20/2000-सीमाशुल्क	तारीख 1 मार्च, 2000	सा0का0नि0 172 (अ),	तारीख 1 मार्च, 2000
अधिसूचना सं0 103/2000-सीमाशुल्क	तारीख 19 जुलाई, 2000	सा0का0नि0 620 (अ),	तारीख 19 जुलाई, 2000
अधिसूचना सं0 146/2000-सीमाशुल्क	तारीख 15 दिसम्बर, 2000	सा0का0नि0 918 (अ),	तारीख 15 दिसम्बर, 2000
अधिसूचना सं0 33/2001-सीमाशुल्क	तारीख 28 मार्च, 2001	सा0का0नि0 223 (अ),	तारीख 28 मार्च, 2001
अधिसूचना सं0 81/2001-सीमाशुल्क	तारीख 20 जुलाई, 2001	सा0का0नि0 548 (अ),	तारीख 20 जुलाई, 2001
अधिसूचना सं0 130/2001-सीमाशुल्क	तारीख 24 दिसम्बर, 2001	सा0का0नि0 920 (अ),	तारीख 24 दिसम्बर, 2001
अधिसूचना सं0 66/2002-सीमाशुल्क	तारीख 26 जून, 2002	सा0का0नि0 452 (अ),	तारीख 26 जून, 2002
अधिसूचना सं0 99/2002-सीमाशुल्क	तारीख 13 सितम्बर, 2002	सा0का0नि0 646 (अ),	तारीख 13 सितम्बर, 2002
अधिसूचना सं0 133/2002-सीमाशुल्क	तारीख 3 दिसम्बर, 2002	सा0का0नि0 792 (अ),	तारीख 3 दिसम्बर, 2002
अधिसूचना सं0 3/2003-सीमाशुल्क	तारीख 3 जनवरी, 2003	सा0का0नि0 10 (अ),	तारीख 3 जनवरी, 2003
अधिसूचना सं0 6/2003-सीमाशुल्क	तारीख 6 जनवरी, 2003	सा0का0नि0 13 (अ),	तारीख 6 जनवरी, 2003
अधिसूचना सं0 28/2003-सीमाशुल्क	तारीख 1 मार्च, 2003	सा0का0नि0 163 (अ),	तारीख 1 मार्च, 2003
अधिसूचना सं0 88/2003-सीमाशुल्क	तारीख 29 मई, 2003	सा0का0नि0 444 (अ),	तारीख 29 मई, 2003
अधिसूचना सं0 93/2003-सीमाशुल्क	तारीख 12 जून, 2003	सा0का0नि0 483 (अ),	तारीख 12 जून, 2003
अधिसूचना सं0 41/2004-सीमाशुल्क	तारीख 27 फरवरी, 2004	सा0का0नि0 150 (अ),	तारीख 27 फरवरी, 2004
अधिसूचना सं0 48/2004-सीमाशुल्क	तारीख 18 मार्च, 2004	सा0का0नि0 199 (अ),	तारीख 18 मार्च, 2004
अधिसूचना सं0 49/2004-सीमाशुल्क	तारीख 23 मार्च, 2004	सा0का0नि0 211 (अ),	तारीख 23 मार्च, 2004
अधिसूचना सं0 66/2005-सीमाशुल्क	तारीख 14 जुलाई, 2005	सा0का0नि0 476 (अ),	तारीख 14 जुलाई, 2005
अधिसूचना सं0 105/2005-सीमाशुल्क	तारीख 28 दिसम्बर, 2005	सा0का0नि0 749 (अ),	तारीख 28 दिसम्बर, 2005

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2006

No. 5/2006-Customs

G.S.R. 37(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 39/96-Customs, dated the 23rd July, 1996, namely:-

In the said notification, in the Table, against S. No. 17, in column (3), in the Explanation, for the words and figures "the 1st day of December, 2005" the words and figures "the 1st day of June, 2006" shall be substituted.

[F. No. 354/190/99-TRU(Part)]

AJAY, Under Secy.

Note: The principal notification No.39/96-Customs dated the 23rd July, 1996 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 291 (E), dated the 23rd July, 1996 and was subsequently amended vide notification No.60/96-Cus. dated 22nd August, 1996, G.S.R. 374(E) dated 22nd August, 1996, 86/96-Cus. dated 6th November, 1996, G.S.R. 516(E) dated 6th November, 1996, 19/97-Cus. dated 1st March, 1997, G.S.R. 106(E) dated 1st March, 1997, 69/97-Cus. dated 15th September, 1997, G.S.R. 538(E) dated 15th September, 1997, 28/98-Cus. dated 2nd June, 1998, G.S.R. 293(E) dated 2nd June, 1998, 99/98-Cus. dated 27th November, 1998, G.S.R. 708(E) dated 27th November, 1998, 27/99-Cus. dated 28th February, 1999, G.S.R. 163(E) dated 28th February, 1999, 111/99-Cus. dated 21st September, 1999, G.S.R. 646(E) dated 21st September, 1999, 118/99-Cus. dated 29th October, 1999, G.S.R. 733(E) dated 29th October, 1999, 8/2000-Cus. dated 27th January, 2000, G.S.R. 67(E) dated 27th January, 2000, 11/2000-Cus. dated 31st January, 2000, G.S.R. 78(E) dated 31st January, 2000, 20/2000-Cus. dated 1st March, 2000, G.S.R. 172(E) dated 1st March, 2000, 103/2000-Cus. dated 19th July, 2000, G.S.R. 620(E) dated 19th July, 2000, 146/2000-Cus. dated 15th December, 2000, G.S.R. 918(E) dated 15th December, 2000, 33/01-Cus. dated 28th March, 2001, G.S.R. 223(E) dated 28th March, 2001, 81/01-Cus. dated 20th July, 2001, G.S.R. 546(E) dated 20th July, 2001, 130/01-Cus. dated 24th December, 2001, G.S.R. 920(E) dated 24th December, 2001, 66/02-Cus. dated 26th June, 2002, G.S.R. 452(E) dated 26th June, 2002, 99/02-Cus. dated 13th September, 2002, G.S.R. 646(E) dated 13th September, 2002, 133/02-Cus. dated 3rd December, 2002, G.S.R. 792(E) dated 3rd December, 2002, 3/03-Cus. dated 3rd January, 2003, G.S.R. 10(E) dated 3rd January, 2003, 6/03-Cus. dated 6th January, 2003, G.S.R. 113(E) dated 6th January, 2003, 28/03-Cus. dated 1st March, 2003, G.S.R. 163(E) dated 1st March, 2003, 88/03-Cus. dated 29th May, 2003, G.S.R. 444(E) dated 29th May, 2003, 93/03-Cus. dated 12th June, 2003, G.S.R. 483(E) dated 12th June, 2003, 41/04-Cus. dated 27th February, 2004, G.S.R. 150(E) dated 27th February, 2004, 48/04-Cus. dated 18th March, 2004, G.S.R. 199(E) dated 18th March, 2004, 49/04-Cus. dated 23rd March, 2004, G.S.R. 211(E) dated 23rd March, 2004, 66/2005-Customs, dated the 14th July, 2005 [G.S.R. 476(E), dated the 14th July, 2005] and was last amended by notification No.105/2005-Customs, dated the 28th December, 2005 [G.S.R. 749(E), dated the 28th December, 2005].